

**मृदानी** *mṛdāni* f. Durgā.  
**मृदीक** *mṛdīka* m. antilope.  
 \* **मृण्** *mṛṇ*; *mṛṇāmi* 6, cf. *mṛ*.  
**मृणात्** *mṛṇāla* m. n. filaments de la tige du lotus. — N. racine d'andropogon.  
*mṛṇādin* m. lotus.  
*mṛṇālini* f. réunion de lotus.  
**मृत्** *mṛt* f. Vd. la terre.  
**मृत** *mṛta* pp. de *mṛ*. — S. n. la mort. || Aumône que l'on demande.  
*mṛtaka* n. cadavre.  
*mṛtakalpa* a. presque mort, évanoui, insensible.  
*mṛtakāntaka* m. (*anta*) chacal.  
*mṛtamalla* m. mms.  
*mṛtasnāta* a. qui a reçu le bain mortuaire.  
 || Mort à la suite d'un bain.  
*mṛtasnāna* n. ablution ou bain mortuaire.  
**मृतण्ड** *mṛṭaṇḍa* et (?) *mṛṭāṇḍa* m. (*anda*) le Soleil [œuf de la terre ?].  
**मृतामद्** *mṛṭāmada* n. (*āma*; *dā*) sulfate de cuivre.  
**मृतालक्ष** *mṛṭālaka*, cf. *mṛṭālā*.  
**मृति** *mṛti* f. (*mṛ*; sfx. *ti*) la mort. || Lat. mors.  
**मृतोऽक्षव** *mṛṭōdāva* m. (*ut*; *bū*) l'océan.  
**मृत्कर्** *mṛṭkara* m. (*kṛ*) potier, celui qui façonne l'argile.  
**मृत्कांशय** *mṛṭkāñcaya* n. (*mṛti*) vase d'argile, pot, cruche.  
**मृत्किरा** *mṛṭkirā* f. (*mṛti*) ver de terre.  
**मृत्ताल** *mṛṭṭāla* n. (*mṛti*) sorte de terre odorante.  
**मृत्तिका** *mṛṭṭikā* f. (*mṛti*; sfx. *ti*; sfx. *ka*) terre, sol, argile. || Terre odorante.  
**मृत्फली** *mṛṭphali* f. (*pāla*) esp. de costus.  
**मृत्यु** *mṛtyu* m. f. n. (*mṛ*; sfx. *tyu*) la mort; — M. Yama.  
*mṛtyunāya* m. (*jī*) Civa.  
*mṛtyunāpaka* m. (*naç* au c.) vif-argent.

**मृत्युपुस्पा** m. canne à sucre [qui fleurit et meurt].  
*mṛtyupāla* n. esp. de fruit vénéneux. — F. banane.  
*mṛtyuḥāgaraka* m. tambour employé dans les cérémonies funèbres.  
*mṛtyubṛtya* m. maladie.  
*mṛtyuvañčana* m. corbeau. || Aigle marmelos, bot. || Civa.  
*mṛtyuvijā* m. bambou.  
*mṛtyusañśāra* m. les vicissitudes de la mortalité.  
*mṛtyusūti* f. crabe.  
*mṛtyusanya* n. l'armée de la mort, c. à d. les passions, Bd.

**मृत्सा** *mṛtsā* f. (sfx. *sa*) terre fertile; || terre odorante.  
*mṛtsābāṇḍaka* n. cruche, pot de terre.

\* **मृद्** *mṛd* *mardāmi* 1. Aller.  
 \* **मृद्** *mṛd*; *mṛdnāmi* 9; p. *mamarda*; etc. Ecraser, broyer, mettre en poudre; *parvalāgrāṇi* les sommets des montagnes, *amitrāṇi* les ennemis; || froisser, *puṣpāṇi hastābhyāṁ* des fleurs dans ses mains. || Frotter, raser, effleurer. || Qqf. dépasser. || Lat. mordeo (?) .

**मृद्** *mṛd* f. terre, cf. *mṛt*.  
**मृद्धुर्** *mṛdaikura* m. colomba hariola, esp. de pigeon.  
**मृद्धः** *mṛdaīga* m. tambour. || Bruit, tumulte. || Bambou.  
*mṛdaīgapāla* m. arbre à pain.  
**मृदा** *mṛdā* f. (*mṛd*) terre, sol, argile.  
**मृदाकर्** *mṛdākara* m. (*mṛd* 9; *kṛ*) foudre.  
**मृदिनी** *mṛdini* f. bonne terre.  
**मृदु** *mṛdu* a. (*mṛd*) lent, indolent, mou. || Doux, tendre, délicat. || Gr. *βραδύς*. — S. f. *mṛdwī* raisin noir.  
*mṛdugamanā* f. oie, cygne.  
*mṛducarmin* m. (*cárma*) le bhūrja, arbre.  
*mṛducedā* m. le bhūrja; le pilu.  
*mṛdutwāca* m. le bhūrja.  
*mṛdunnaka* n. or [métal].  
*mṛdupuṣpa* m. mimosa sirisha, bot.  
*mṛdula* a. (sfx. *la*) lent, indolent, mou; || doux. — S. n. eau douce.

**मृदुरोमावत्** m. (*rōma*) lièvre.  
*mṛdulōmaka* m. (*lōman*) lièvre.  
*mṛduvādā* a. qui parle lentement [ép. des *Dasyus*] Vd.  
*mṛduvāla* m. doux vent, zéphyr.  
*mṛdūtpala* n. (*utpalā*) lotus bleu.  
*mṛdwaīga* n. (*aīga*) étain.  
*mṛdwikā* f. (sfx. *ika*) raisin.  
 \* **मृधू** *mṛdā*; *mardāmi*, *mardē* 1. Humecter, mouiller. || Etre humide.  
 \* **मृधू** *mṛdā*, Vd. *mardāmi*, *mardē* 1. Tuer; || trahir; *mā nō mardīs* ne nous abandonne pas, Vd.  
**मृध** *mṛda* n. bataille.  
**मृध्र** *mṛdra* a. Vd. pour *mṛdu*: *mṛdravāc* a. pour *mṛduvāc*.  
**मृन्मय** *mṛnmaya* a. (*mṛt*; sfx. *maya*) de terre, d'argile.  
**मृन्मरु** *mṛnmaru* m. (*mṛt*) sol désert, rocher.  
 \* **मृत्** *mṛl* et **मृङ्** *mṛl*, Vd. pour *mṛd*.  
**मृत्तोष्ट** *mṛllōṣṭa* m. n. (*mṛt*) motte de terre.  
 \* **मृश** *mṛṣe*; *mṛṣāmi* 6; p. *mamarça*; f. *mṛṣṭāsmi* et *mṛastāsmi*; f2. *marxyāmi* et *mṛazyāmi*; a1. *amārāram* et *amṛāram*. Toucher; caresser avec la main. || Percevoir, concevoir; considérer, méditer, ac. || Lat. mulcere; cf. *mṛj*.  
 \* **मृष** *mṛṣ*; *mṛṣāmi*, *mṛṣē* 1, et *mṛṣyāmi*, *mṛṣyē* 4 [qqf. *mṛṣayāmi* 10]. Supporter, endurer, *śiṣmavačo na mṛṣyāmi* je ne puis supporter les paroles de Bhishma; || pardonner, *imām agnē paramim mīmṛṣō nas*, Agni, pardonne-nous cette violation, Vd. || Ne pas prendre garde, négliger, oublier, Vd.  
 \* **मृष** *mṛṣ*; *mṛṣāmi* 1; pp. *mṛṣā*. Répandre, verser; arroser, couvrir [d'un liquide]. Cf. *vṛṣ* et *mīṣ*.  
**मृषा** *mṛṣā* adv. faussement, à tort; en vain.  
*mṛṣārṭaka* n. (*art'a*) signification impossible, absurdité [d'un mot composé d'éléments incompatibles].  
*mṛṣālaka* m. manguier.  
*mṛṣāvāda* m. ironie, fausse louange.  
*mṛṣāvādin* a. qui tient un langage faux ou ironique. — S. m. calomniateur.

**मृषोद्या** a. (*vad*) mms.  
**मृष्ट** *mṛṣṭa* pp. de *mṛj* et de *mṛṣ*.  
*mṛṣṭwā* gér. de *mṛj* et de *mṛṣ*.  
 \* **मृ** *mṛ*; *mṛṇāmi* 9; p. *mamāra*; a1. *amārīsam*. Tuer; cf. *mṛ*, *mṛṇ*.  
**मे** *mē* d. et g. de *aham*.  
 \* **मे** *mē*. *mayē* 1; p. *mamē*; f1. *mādāhē*; f2. *māsyē*; a1. *amāsi*. Changer, échanger.  
**मेखला** *mēkalā* f. ceinture de femme. || Ceinturon, baudrier. || Le cordon sacré [de *mūjā* ou de *kucā* pour les brâhmaṇes, de *mūrvā* pour les Xattriyas, de *caṇa* pour les vācyas]. Ligne mystique tracée autour de la cavité où l'on place le feu sacré. || Bord d'une montagne. || La Narmadâ, rivière qui vient du mont Mêkhala ou Mêkala.  
*mēkalāpada* n. la taille, les reins [place de la ceinture].  
**मेच्यामि** *mēxyāmi* f2. de *mih*.  
**मेघ** *mēga* m. (*mih*) nuage. || Cyperus rotundus, bot. || Np. d'un démon.  
*mējakāpa* m. grêle.  
*mējakāla* m. la saison des pluies.  
*mēgāgamībā* a. profond comme le nuage, qui retentit dans les nuages.  
*mēgādīnaka* m. coucou *ētaka*.  
*mējāja* a. (*jan*) né du nuage. — S. m. grosse perle.  
*mējājāla* n. talc.  
*mēgōjivaka* m. le coucou *ētaka*.  
*mēgājyōlīs* m. lieu de l'éclair.  
*mēgātimira* n. obscurité produite par les nuages, temps sombre.  
*mēgādīpā* m. éclair.  
*mēgādūrā* n. l'atmosphère.  
*mēganāḍda* m. tonnerre, bruit des nuages. || Le *palāca*; amaranthe polygame. || Varna; || Le fils de Râvana.  
*mēganāḍdānulāśin* m. (*anu*; *las*) paon [que réjouit le tonnerre].  
*mēganāman* m. cyperus rotundus.  
*mēgānirgōśa* (*nīs*; *gūśi*) qui retentit comme les nuages. — S. m. le bruit du tonnerre.  
*mēgāpuspa* n. eau; eau courante; grêle.  
 — M. un des chevaux de Vishnu.  
*mēgāprasava* m. (*pra*; *sū*) eau, pluie.  
*mēgābūli* m. (*bū*) foudre.  
*mēgāndī* f. file de nuages.  
*mēgāyōni* m. fumée.  
*mēgarāga* m. un des 6 modes musicaux.  
*mēgāvarṇa* a. qui a la couleur du nuage, bleu foncé. — F. indigotier.  
*mēgāvartman* n. l'atmosphère.  
*mēgāvahni* m. le feu des nuages, la foudre, l'éclair.  
*mēgāvāhana* a. (*vah*) porté sur un nuage. — S. m. un dieu; || Indra; Civa; etc.